



दिनांक- 16.01.2021

MAHOBA POLICE

सोशल मीडिया सेल



जनपद का कुख्यात/टाप-10 व जोन से चिन्हित अपराधी चैतू उर्फ चेताराम पाल को महोबा पुलिस ने किया गिरफ्तार, पड़ोसी जनपदो सहित म0प्र0 में दर्ज हैं कई दर्जन मुकदमें ।



जनपद का कुख्यात/टाप-10 एवं जोन से चिन्हित अपराधी चैतू उर्फ चेताराम पाल को आज दिनांक 16.01.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरूण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में चलाये जा रहे टाप-10 व शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के तहत एवं अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर.के. गौतम एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री कालू सिंह के पर्यवेक्षण में प्र0नि0 कबरई श्री दीपक कुमार पाण्डेय मय टीम द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर स्कार्पियो गाड़ी नं0 UP 14 AN 2999 में सवार कुख्यात टॉप-टेन अपराधी चैतू उर्फ चेताराम पाल पुत्र भगू पाल उम्र 57 वर्ष, नि0ग्राम मकरबई थाना कबरई जनपद महोबा व उसके 02 साथियों सहित मय अवैध असलहों/कारतूसों से लैस एवं **04 किलो 700 ग्राम नाजायज गांजा** के साथ मकरबई रोड रेलवे पुल के आगे से गिरफ्तार किया गया । जामा



दिनांक- 16.01.2021

MAHOBA POLICE

सोशल मीडिया सेल



तलाशी से अभियुक्त चैतू उर्फ चेताराम पाल के कब्जे से 01 अदद तमन्चा 315 बोर व 03 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व अभियुक्त महेन्द्र पाल के कब्जे से 01 अदद तमन्चा 12 बोर व 03 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर व अभियुक्त श्रीपाल के कब्जे से 01 अदद तमन्चा 12 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर नाजायज बरामद हुये। अभियुक्तगणों के विरुद्ध क्रमशः मु.अ.सं. 20/2021 धारा 8/20 NDPS ACT. मु0अ0सं0 21/2021, 22/2021, 23/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तगणों को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगणों का विवरण:-

1. टॉपटेन अपराधी चैतू उर्फ चेताराम पाल पुत्र भग्गू पाल उम्र 57 वर्ष
2. महेन्द्र पाल पुत्र आनन्दी पाल उम्र 32 वर्ष
नि0गण ग्राम मकरबई थाना कबरई जनपद महोबा।

3. श्रीपाल पुत्र जोगा पाल उम्र 42 वर्ष, हाल नि0 मु0 सुभाष नगर थाना कबरई जिला महोबा। मूल निवासी कटहरा थाना लवकुश नगर जिला छतरपुर (म.प्र.)

बरामदगी-

1. अभियुक्तगण चैतू उर्फ चेताराम पाल व महेन्द्र पाल व श्रीपाल के कब्जे से स्कार्पियो गाड़ी नं. UP 14 AN 2999 से 04 किलो 700 ग्राम नाजायज गांजा बरामद होना।
2. अभियुक्त चैतू उर्फ चेताराम पाल के कब्जे से 01 अदद तमन्चा 315 बोर व 03 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद होना।
3. अभियुक्त महेन्द्र पाल के कब्जे से 01 अदद तमन्चा 12 बोर व 03 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद होना।
4. अभियुक्त श्रीपाल के कब्जे से 01 अदद तमन्चा 12 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर नाजायज बरामद होना।



दिनांक- 16.01.2021

MAHOBA POLICE

सोशल मीडिया सेल



आपराधिक विवरण:-

1. अभियुक्त चैतू उर्फ चेताराम पाल उपरोक्त के विरुद्ध जनपद में कुल 31 मुकदमें दर्ज हैं। इसके अतिरिक्त पड़ोसी जनपदों एवं म0प्र0 के कई जनपदों में कई दर्जन मुकदमें पंजीकृत हैं।

2. अभियुक्त महेन्द्र पाल उपरोक्त के विरुद्ध कुल 03 मुकदमें दर्ज हैं।

गिरफ्तार करने वाली कबरई पुलिस टीम का विवरण:-

1. उ.नि. श्री राजेश कुमार मिश्रा
2. उ.नि. श्री ब्रम्हादीन
3. कां. अवनेश कुमार
4. कां. हरीओम
5. का. श्यामू कुमार
6. कां. धर्मेन्द्र कुमार यादव



दिनांक- 16.01.2021

MAHOBA POLICE

सोशल मीडिया सेल



खरेला पुलिस द्वारा 07 अपराधियों के विरुद्ध की गई गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही



आज दिनांक 16.01.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में शातिर अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही के तहत प्र०नि० खरेला श्री अनिल कुमार मय टीम द्वारा गैंग लीडर छेदू मियाँ पुत्र मोहब्बत उम्र 30 वर्ष, नि 0ग्राम चकदहा थाना मौदहा जनपद हमीरपुर, जो अपने गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर अन्य जनपदों में अवैध शस्त्रों के साथ चोरी, लूट, छिनैती कर लोगों में डर, भय आतंक फैलाने का काम किया जाता रहा है। इस गैंग का आम जनमानस में इतना भय व आतंक व्याप्त है कि इस गैंग के विरुद्ध कोई भी जनता का व्यक्ति पुलिस से शिकायत या गवाही देने का साहस नहीं जुटा पाता है। **इस गैंग के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 07/2021 धारा 3(1) गैंगेस्टर अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया है।**

गैंग लीडर व सदस्यों का विवरण:-

1. छेदू मियाँ पुत्र मोहब्बत उम्र 30 वर्ष
2. अवधेश कुमार पुत्र सुखदेव उम्र 30वर्ष
3. सुरेन्द्र यादव पुत्र गोरेलाल उम्र 32 वर्ष
4. जगदीश यादव पुत्र भेल्ला यादव उम्र 48 वर्ष
नि० चकदहा थाना मौदहा जनपद हमीरपुर।
5. बड़नका यादव पुत्र बौरा यादव उम्र 50वर्ष नि 0ग्राम रतौली थाना बिवार जनपद हमीरपुर
6. रविन्द्र सेन पुत्र छिदू नाई उम्र 32वर्ष नि 0ग्राम पारा थाना बिवार जनपद हमीरपुर
7. धर्मपाल उर्फ डाक्टर पुत्र रामसहाय उम्र 48वर्ष नि 0ग्राम धनपुरा थाना बिवार जनपद हमीरपुर।

गैंगेस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही करने वाले पुलिस टीम का विवरण:-

1. श्री अनिल कुमार (प्रभारी निरीक्षक थाना खरेला)
2. का० हरेन्द्र कुमार
3. का० मोहम्मद कामिल



दिनांक- 16.01.2021

MAHOBA POLICE

सोशल मीडिया सेल



चरखारी पुलिस ने जुआ खेलते 03 जुआरियों को किया गिरफ्तार



दिनांक 15.01.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में चलाये जा रहे जुआरियों की गिरफ्तारी अभियान के तहत थाना प्रभारी चरखारी श्री लाखन सिंह द्वारा गठित टीम उ.नि. अविनाश कुमार मिश्र मय हमराहियान के महावीर मंदिर के सामने

तलैया के पास बहद ग्राम रिवाई से 03 नफर अभियुक्तगणों को रुपये-पैसे द्वारा हार-जीत की लगाकर जुआ खेलते गिरफ्तार किया गया है। कब्जे से मालफड 1200/-रु0, जामा तलाशी 250/-रु0 व 52 अदद ताश के बरामद किये गये। जिनके विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 20/2021 धारा 13 जुआ अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।

गिरफ्तार अभियुक्तगणों का विवरण:-

1. बृजेन्द्र साहू पुत्र चतुर्भुज उम्र 30 वर्ष
 2. बृजेन्द्र पाल पुत्र लालचन्द उम्र 32 वर्ष
 3. भागबली पाल पुत्र हरीराम उम्र 23 वर्ष
- नि0गण ग्राम रिवाई थाना चरखारी जनपद महोबा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

1. उ.नि. अविनाश कुमार मिश्र
2. का. संदीप कुमार
3. का. रत्नाकर ओझा



दिनांक- 16.01.2021

MAHOBA POLICE

सोशल मीडिया सेल



“मिशन शक्ति” टीम द्वारा छात्रों को दी गई हिदायत साथ ही छात्राओं को दिये सुरक्षा/कानून सम्बन्धी जानकारी



आज दिनांक 16.01.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में जनपद में संचालित हो रहे “मिशन शक्ति” महाभियान कार्यक्रम के तहत नोडल अधिकारी मिशन शक्ति निरीक्षक श्रीमती रचना सिंह मय टीम द्वारा **सन्त जेम्स इन्टर कालेज, चरखारी** में जाकर छात्राओं को नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन के प्रति जागरूक किया गया तथा उन्हें महिला हेल्पलाइन नम्बर- 1090,181,112,1076 आदि नंबरों की जानकारी दी गई। साथ

ही टीम द्वारा मौजूद छात्रों को लड़कियों पर छीटाकशी/छेड़खानी करने व महिला सम्बन्धी अपराध करने से बचने की सलाह दी गई। उन्हें बताया गया कि कानून सभी के लिए बराबर है। बाल अपराध के खिलाफ भी कार्यवाही होगी। किसी भी विद्यार्थी को कोई परेशानी होने पर तुरन्त चाइन्ड केयर नं0 1098 पर फोन कर सकते हैं।





दिनांक- 16.01.2021

MAHOBA POLICE

सोशल मीडिया सेल



महोबकण्ठ पुलिस ने 30 लीटर अवैध शराब सहित 02 अभियुक्ताओं को किया गिरफ्तार



आज दिनांक 16.01.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री ए0के0 श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में चलाये जा रहे अवैध शराब की बरामदगी अभियान के तहत थानाध्यक्ष महोबकण्ठ श्री दिनेश सिंह मय हमराहियान के 02 नफर अभियुक्ताओं को **15-15 लीटर देशी शराब कच्ची मुहआँ नाजायज** सहित बहद ग्राम सौरा से गिरफ्तार किया गया। जिनके विरुद्ध क्रमशः **मु0अ0सं0 06/2021 व 07/2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम** का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्ताओं का विवरण:-

- (1) श्रीमती दीपा पत्नी घनश्याम कबूतरा उम्र करीब 42 वर्ष
- (2) श्रीमती निर्मला पत्नी कपिल कबूतरा उम्र करीब 30 वर्ष
निवासीगण कबूतरा डेरा सौरा थाना महोबकण्ठ जनपद महोबा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

1. श्री दिनेश सिंह (थानाध्यक्ष महोबकण्ठ)
2. कां0 संदीप सिंह
3. कां0 प्रभूजी मिश्रा
4. महिला कां0 सुरभि निरंजन



दिनांक- 16.01.2021

MAHOBA POLICE

सोशल मीडिया सेल



कुलपहाड़ पुलिस ने 02 वारन्टी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार



आज दिनांक 16/01/2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में चलाये जा रहे वारन्टी/वाँछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के तहत प्र0नि0 कुलपहाड़ श्री रविन्द्र कुमार तिवारी द्वारा गठित टीम उ0नि0 श्री अनमोल सिंह मय हमराहियान के 02 नफर वारन्टी अभियुक्त **1. प्यारेलाल पुत्र दम्मू निवासी नयापुरा कस्बा बेलाताल थाना कुलपहाड़ जिला महोबा, सम्बन्धित केश नं0 369/15 धारा 323/504 भादवि 2. पप्पू पुत्र छिदुआ रैकवार निवासी नयापुरा कस्बा बेलाताल थाना कुलपहाड़ जिला महोबा, सम्बन्धित मु.नं. 66/18 धारा 60 आबकारी एक्ट** मा0 न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट कुलपहाड़ को मुखबिर खास सूचना पर गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तों का विवरण:-

1. प्यारेलाल पुत्र दम्मू
2. पप्पू पुत्र छिदुआ रैकवार
निवासीगण नयापुरा कस्बा बेलाताल थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

1. उ0नि0 श्री अनमोल सिंह
2. का0 राहुल अग्निहोत्री
3. का0 पवन सिंह



दिनांक- 16.01.2021

MAHOBA POLICE

सोशल मीडिया सेल



थाना कुलपहाड पुलिस टीम ने ताश के पत्तों से हार-जीत की बाजी लगाते 10 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार:-



पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के आदेशानुसार जनपदीय पुलिस द्वारा चलाये जा रहे अपराध एवं अपराधियों के धरपकड अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर०के० गौतम व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड श्री रामप्रवेश राय के निकट पर्यवेक्षण मे आज दिनांक 16.01.2021 को थाना कुलपहाड मे **SHO** श्री रविन्द्र कुमार तिवारी के द्वारा गठित टीम ने खुल्लू कुशवाहा के घर के पीछे ग्राम मौहारी थाना कुलपहाड़ ताश के पत्तों से जुआ खेल रहे 10 नफर अभियुक्त गण को गिरफ्तार किया गया । जिसमें मालफड से 3600 रुपये व 52 अदद ताश पत्ते व जामा तलाशी 1600 रुपये बरामद हुए । जिसके सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु०अ०सं० 10/2021 धारा 13 जुआ अधिनियम थाना कुलपहाड का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी ।

विवरण बरामदगी माल:-

मालफड से 3600 रुपये 52 अदद ताश पत्ते व जामा तलाशी 1600 रुपये बरामद हुए ।

गिरफ्तार अभियुक्त गण का विवरण:-

(1). महेश पुत्र दुर्गाप्रसाद उम्र 30 वर्ष (2). प्रकाश पुत्र गुलजारी उम्र 45 वर्ष (3). गनेश पुत्र घनश्याम उम्र 25 वर्ष (4). विनोद पुत्र छिब्बी उम्र 42 वर्ष (5). बालादीन पुत्र अनन्तराम उम्र 48 वर्ष (6). भानुप्रताप पुत्र बच्चूलाल उम्र 28 वर्ष (7). मातादीन पुत्र शिवदीन उम्र 32 वर्ष (8). अशोक पुत्र देवीप्रसाद उम्र 46 वर्ष (9). अमर सिंह पुत्र भारत उम्र 40 वर्ष (10). चेताराम उर्फ जगदीश पुत्र सुरेश कुशवाहा उम्र 22 वर्ष

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

1. उ०नि० महेन्द्र पताप सिंह
2. कां० पंकज कुमार 3. कां० नीलेश यादव
4. कां० अभिषेक कुमार 5. कां० सौरभ सिंह 6. कां० देवेन्द्र राजपूत...।



दिनांक- 16.01.2021

MAHOBA POLICE

सोशल मीडिया सेल



आगामी ग्राम पंचायत चुनाव को सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु अजनर व कुलपहाड थाना क्षेत्र के गाँव में चौपाल लगाकर सुनी गई जन-समस्याएँ तथा किया गया शस्त्र-सत्यापन/H.S. की चेकिंग...



सत्यापन, हिस्ट्रीशीटों की चेकिंग, पुराने विवाद, अपराधियों की गतिविधियाँ पर कड़ी नजर तथा ग्रामवासियों के साथ चौपाल लगाकर गांव के लोगों की समस्याओं को सुना गया तथा ग्रामवासियों से आपस में शांति-व्यवस्था बनाये रखने एवं पंचायत चुनाव शान्ति को पूर्ण सम्पन्न कराये जाने हेतु पुलिस प्रशासन का सहयोग करने की अपील की गयी।



आज दिनांक 16.01.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में आगामी ग्राम पंचायत चुनाव को सकुशल/शान्ति पूर्वक सम्पन्न कराये जाने के क्रम में **क्षेत्राधिकारी कुलपहाड श्री रामप्रवेश राय** की अध्यक्षता में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना अजनर श्याम प्रताप पटेल की मौजूदगी में ग्राम **महुआबांध, कथौरा व खमा** में एवं इसी क्रम में प्रभारी निरीक्षक थाना कुलपहाड रविन्द्र कुमार तिवारी द्वारा ग्राम लाडपुर में जाकर आगामी पंचायत चुनाव के मद्देनजर शस्त्र-





दिनांक- 16.01.2021

MAHOBA POLICE

सोशल मीडिया सेल



जनपदीय पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान के तहत पैदल गस्त करके संदिग्धों/शराब दुकानों की चेकिंग की गयी एवं यातायात नियमों के उल्लंघन पर किये गये ई-चालान



आज दिनांक 16.01.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में जनपद के सभी थानों में जनपदीय पुलिस द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में कानून एवं शान्ति व्यवस्था के मद्देनजर पैदल गस्त करके संदिग्धों की चेकिंग की गयी तथा इसी क्रम में जनपद के समस्त थानों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में पैदल गस्त कर संदिग्धों/अराजक तत्वों/होटल/ढाबा/मुख्य बाजार आदि जगहों की चेकिंग की गई, इसके साथ ही आगामी ग्राम पंचायत चुनाव को सकुशल/शान्ति पूर्वक सम्पन्न कराये जाने के क्रम में थाना क्षेत्र में

मौजूद शराब की दुकानों की सघन चेकिंग की गयी तथा बार्डर पर बैरियर लगाकर आने-जाने वाले वाहनों की गहनता से चेकिंग व पूछताछ की गई। **कोविड-19** का पालन कराये जाने तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर **व्यक्तियों 34 से 4500/-रु0** जुर्माना व **68 ई-चालान** किये गये।





दिनांक- 16.01.2021

MAHOBA POLICE

सोशल मीडिया सेल



गुड मॉर्निंग महोबा

सोशल मीडिया सेल
दिनांक 16.01.2020

सुबह की शुरुआत महोबा पुलिस के साथ

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में "गुड मॉर्निंग महोबा पुलिस" पहल के तहत जनपदीय पुलिस द्वारा अपने थाना क्षेत्रों में सुबह-सुबह भ्रमण पर निकले लोगों से चाय की चुस्की के साथ गुड मॉर्निंग कहा एवं उनसे वार्ता कर उनका हाल जाना गया।



@mahobapolice



SP Mahoba



7839857330